



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 कार्तिक 1933 (श0)

(सं0 पटना 631)

पटना, मंगलवार, 15 नवम्बर 2011

गन्ना उद्योग विभाग

आदेश

29 सितम्बर 2011

सं0 2153—मे० एम.पी.चीनी इन्डस्ट्रीज लि., मझौलिया, प० चम्पारण के लिए बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम-1981 की धारा 31(1) के अन्तर्गत ग्रामों का आरक्षण आदेश।

पेराई सत्र 2011-12 एवं आगे के वर्षों के लिए ईख आपूर्ति हेतु इस चीनी मिल द्वारा समर्पित आरक्षण प्रस्ताव पर सुनवाई दिनांक 30 अगस्त 2011 को हुई।

सुनवाई के क्रम में एम.पी.चीनी इन्डस्ट्रीज लि. के प्रबन्धक द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा अपने चीनी मिल की पेराई क्षमता को 3500TCD से विस्तारित करके 5000TCD किया गया है तथा उपरोक्त के अनुरूप पेराई सत्र 2011-12 में उनके द्वारा पेराई कार्य किया जायेगा। उन्होंने बताया कि उनके मिल के लिए 187 ग्रामों का परम्परागत क्षेत्र गठित है तथा उसके अतिरिक्त गैर-परम्परागत रूप में गोविन्दगंज क्षेत्र के 79 ग्राम, चनपटिया क्षेत्र के 8 ग्राम एवं सूरजपुर क्षेत्र के 5 ग्राम कुल 92 ग्राम उनको आरक्षित होते आये हैं जिनका आगामी सत्र के लिए आरक्षण अवधि समाप्त हो चुका है। उन्होंने बताया कि उनके परम्परागत क्षेत्र में 118500 एकड़ एवं अपरम्परागत क्षेत्र में लगभग 64000 एकड़ कुल 181500 एकड़ कृषि योग्य भूमि है जिसमें 45 लाख क्विंटल गन्ना (आच्छादन 32.96 प्रतिशत में) मात्र पेराई हेतु उपलब्ध है। उन्हें गन्ने की कमी है। अतः उनके द्वारा पूर्व से आरक्षित ग्रामों से गन्ने की खरीद की अनुमति सहित चनपटिया क्षेत्र के अतिरिक्त 11 ग्राम सिकटा क्षेत्र के 4 ग्राम एवं गोविन्दगंज क्षेत्र में अतिरिक्त 44 ग्रामों के आरक्षण की मांग की गई है।

क्षेत्र आरक्षण से सम्बन्धित मझौलिया चीनी मिल के उपर्युक्त माँग पर सुगौली, हरिनगर, नरकटियागंज एवं सिधवालिया चीनी मिल द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई। सुगौली चीनी मिल के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा सुगौली में एक 3500TCD की चीनी मिल, 60KLPD की डिस्टीलरी एवं 20MW विद्युत-सह-उत्पादन इकाई की स्थापना की गई है। उनका आरक्षित क्षेत्र मात्र 173 ग्रामों में सीमित है जिससे आगामी पेराई सत्र के लिए उन्हें मात्र 22 से 23 लाख क्विंटल ही गन्ना उपलब्ध हो पायेगा जो उनके **Viability** के दृष्टिकोण से समुचित नहीं है। उपरोक्त के आलोक में उनके द्वारा गोविन्दगंज क्षेत्र के ग्रामों को उनके पक्ष में आरक्षित करने का अनुरोध किया गया।

मझौलिया चीनी मिल के चनपटिया एवं सिकटा क्षेत्र के अतिरिक्त ग्रामों के आरक्षण के माँग पर क्रमशः नरकटियागंज एवं हरिनगर चीनी मिल प्रतिनिधि द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई एवं बताया गया कि प्रश्नगत ग्राम उनको आरक्षित होते आये हैं तथा आगामी पेराई सत्र में उनको गन्ने की कमी के दृष्टिकोण से ग्राम उनके साथ

आरक्षित किया जाना चाहिये। गोविन्दगंज क्षेत्र में 44 अतिरिक्त ग्रामों की माँग पर भी सिधवालिया चीनी मिल प्रतिनिधि द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई एवं बताया गया कि ये ग्राम उन्हें पूर्व से आरक्षित होते आ रहे हैं अतः उनके गन्ने की आवश्यकता के दृष्टिगत इन ग्रामों का आरक्षण उनके साथ ही रहना चाहिये।

सुनवाई के दौरान बैठक में उपस्थित विभागीय पदाधिकारियों के मंतव्य को सुना गया एवं क्षे. वि. परिषदों द्वारा की गई अनुशंसाओं का भी अवलोकन किया गया, जिस क्रम में यह परिलक्षित हुआ कि इस चीनी मिल के आरक्षित क्षेत्र में मात्र 39 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई हेतु उपलब्धता संभावित है। अर्थात् मात्र 30 प्रतिशत आरक्षित क्षेत्र में गन्ने का आच्छादन है। अतएव, सधन ईख विकास के कार्यक्रमों के माध्यम से इस चीनी मिल को अपने परम्परागत आरक्षित क्षेत्र में गन्ने का आच्छादन एवं उत्पादन में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता है।

उपलब्ध अतिरिक्त क्षेत्र के दृष्टिगत इस चीनी मिल के क्षेत्र आरक्षण के संदर्भ में निम्न आदेश पारित किये जाते हैं:-

1. गोविन्दगंज क्षेत्र के अंतर्गत 80 ग्रामों को पेराई सत्र 2011-12 से 2013-2014 तक के लिए अपरम्परागत रूप से आरक्षित किये जाता है। (सूची संलग्न परिशिष्ट-“क”)
2. पूर्व से आरक्षित हो रहे चनपटिया क्षेत्र के 8 ग्राम, सूर्यपुर क्षेत्र के 5 ग्रामों एवं मझौलिया अंचल के 2 ग्रामों को पेराई सत्र 2011-12 से 2013-14 तक के लिए अपरम्परागत रूप से इस चीनी मिल के साथ आरक्षित किये जाता है। (सूची संलग्न-परिशिष्ट-“ख”)
3. पूर्व से स्थापित सटहाँ यूनिट के आसपास गोविन्दगंज क्षेत्र के 30 ग्राम (सूची संलग्न) मुक्त रहेंगे। (परिशिष्ट-“ग”)
4. चनपटिया क्षेत्र से मांगे गये 11 ग्राम, सिकटा क्षेत्र के 4 ग्राम एवं गोविन्दगंज क्षेत्र में अतिरिक्त ग्रामों की मांग को व्यवहारिक नहीं होने के कारण अस्वीकृत किया जाता है।

आदेश से,  
विमलानन्द झा,  
ईखायुक्त, बिहार, पटना।

एम.पी.चीनी इन्डस्ट्रीज लि.,मझौलिया को पेराई वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक अपरम्परागत रूप से आरक्षित ग्रामों की सूची :-

परिशिष्ट-“क”

जिला का नाम	प्रखण्ड	क्रमांक	ग्राम का नाम	राजस्व थाना संख्या
पूर्वी चम्पारण	अरेराज	01.	चटिया (उत्तरी भाग)	28
		02.	ममरखा (टोला भैया)	29
		03.	ममरखा	30
		04.	गुजरवलिया	31
		05.	खजूरिया	60
		06.	कमलुआ	61
		07.	दामोदरपुर	62
		08.	सिसवा	63
		09.	होरिल छपरा	64
		10.	पुरन्दरपुर	65
		11.	सिरनी	66

		12.	वेलही	67
		13.	नगदाहा	68
		14.	मिश्रौलिया	69
		15.	बथना	70
		16.	लोकनाथपुर	71
		17.	टोलावन पाण्डेय	72
		18.	सखवाँ	73
		19.	सरैया	74
		20.	चैनपुर	75
		21.	पिपरा	76
		22.	टिकुलिया	77
		23.	परसा	78
		24.	वभनौली	79
		25.	रामपुर छपकहियाँ	80
		26.	कौआहा	81
		27.	मंगूराहा	82
		28.	ररहिया	83
		29.	राजेपुर	86
		30.	मिश्रौलिया	87
		31.	हरदिया	88
		32.	लौरिया	89
		33.	झखरा	90
		34.	सलहाँ	91
		35.	कोहवरवा	92

		36.	गुरहौ	93
		37.	इन्दुटोला	94
		38.	भेलानारी	95
		39.	जितवारपुर	96
		40.	मोहम्मदपुर	97
		41.	नवादा,गोविन्दगंज (पश्चिमी भाग)	98
		42.	संग्रामपुर (पश्चिमी भाग)	172
		43.	खजूरिया	141
		44.	बहादुरपुर	101
		45.	जनेरवा	103
पूर्वी चम्पारण	पहाड़पुर	46.	एराजी टिकुलिया	44
		47.	टिकुलिया	45
		48.	पहाड़पुर	36
		49.	लखनीपुर	35
		50.	गोवर्धनपुर	58
		51.	गंगा पीपरा	57
		52.	नीरपुर	84
		53.	खैरवा	43
		54.	कोटवा	59
		55.	वरकुरवा	34
		56.	सोनवल अहिरौलिया	37
		57.	इंगलिश	38
		58.	वनकटवा	85
		59.	अमवा निजामत	41

		60.	अमवा	40
		61.	परसौनी	42
		62.	कमाल पीपरा	50
		63.	टिकुलिया	45
		64.	भाजा छापर	47
		65.	बबरईया	48
		66.	वतरवलिया	51
		67.	बनकटवा	85
		68.	रायकररिया	114
	हरसिद्धि	69.	जगदीशपुर	49
		70.	कृत्तपुर	52
		71.	कृत्तपुर टोला इंगलिश	53
		72.	गड्डूपुर	54
		73.	माधोपुर	55
		74.	कृत्तपुर बन्दोवस्तमी मठिया	56
		75.	चरहिया	106
		76.	कोईसीपाकर	107
		77.	हसुआहा	140
		78.	बगहा	112
		79.	रामनगर	143
		80.	विशुनपुर ननकार	144

अपरम्परागत रूप से आरक्षित ग्रामों की सूची :-  
परिशिष्ट-“ख”

जिला का नाम	अंचल का नाम	क्रमांक	ग्राम का नाम	राजस्व थाना संख्या
प० चम्पारण	चनपटिया	01.	बेतिया डीह	128
		02.	वानूछापर	129
		03.	छावनी	127
		04.	वरोहिया	73
		05.	मोतीछापर	75
		06.	भरवलिया	144
		07.	मथौली	139
		08.	भंगहा	74
	वैरिया	09.	पटजीरवा	107
		10.	मसानढाव	109
		11.	निमुईया	121
		12.	सूरजपुर	108
	ठकराहा	13.	श्रीनगर	434
	मझौलिया	14.	परसा केशोवन	291
		15.	करमवा	288

परिशिष्ट-“ग”  
गोविन्दगंज क्षेत्र में मुक्त 30 ग्रामों की सूची

जिला का नाम	अंचल का नाम	क्रमांक	ग्राम का नाम	राजस्व थाना संख्या
पूर्वी चम्पारण	पहाड़पुर	01.	नोनिया	01
		02.	रघुनाथपुर	02
		03.	पंडितपुर	03
		04.	लगुनिया	04
		05.	मनकरिया	05
		06.	लौकाहाँ	06
		07.	इनारवरवाँ	07
		08.	बनकट	08
		09.	विशुनपुर मटियरवा	09
		10.	वृत्ती टोला	10

		11.	सरैया खास	11
		12.	सरैयाटोला सेनुर	12
		13.	मंगुराहा	13
		14.	दुधिर्योवा	14
		15.	एकडेरवा	15
		16.	अहिरवलिया (सोनवल)	16
		17.	सोनवल सरैया	17
		18.	सरैयाटोला मठिया	18
		19.	खैरा चौवे	19
		20.	खैरवा	20
		21.	रकवा मंझरिया	21
		22.	सरहंगी छाप	22
		23.	बलुआ वृत्तिटोला	23
		24.	रेखा सरैया	24
		25.	टोक वरवलिया	25
		26.	भरवलिया	26
		27.	मेझरिया	27
		28.	तेजपुरवा	32
		29.	सोनवल	33
		30.	नौवाडीह	39

आदेश से,  
विमलानन्द झा,  
ईखायुक्त, बिहार, पटना।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 631-571+50-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>